

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2022 — भाद्रपद 11, शक 1944

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 सितम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-121/2002/वा.क.(पं.)/पांच(76).— भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 5 तथा 7 के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्वारा :-

- (1) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला सूरजपुर बनाती है, जिसमें संपूर्ण सूरजपुर, प्रतापपुर, प्रेमनगर, रामानुजनगर, लटोरी, भैयाथान एवं ओडगी राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी, जो कि वर्तमान में सरगुजा रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त सरगुजा रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे.
- (ख) सूरजपुर में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, सूरजपुर होगा.
- (2) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला बलरामपुर बनाती है, जिसमें संपूर्ण बलरामपुर, रामानुजगंज, कुसमी, वाड्डफनगर, राजपुर, शंकरगढ़, रामचंद्रपुर एवं सामरी राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी, जो कि वर्तमान में सरगुजा रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त सरगुजा रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे.
- (ख) बलरामपुर में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, बलरामपुर होगा.
- (3) यह निर्देश देती है कि ऊपर क्रमशः सरल क्रमांक (1) तथा (2) के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन जिलों का बनाया जाना तथा रजिस्ट्रार के कार्यालय का स्थापित किया जाना, दिनांक 05 सितम्बर 2022 को/से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 2 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ 6-121/2002/वा.क.(पं.)/पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-121/2002/वा.क.(पं.)/पांच(76), दिनांक 02-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.

Atal Nagar, the 2nd September 2022

NOTIFICATION

No. F 6-121/2002/CT(R)/V (76).— In exercise of the powers conferred by section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), the State Government, hereby :-

1. (a) forms the Registration District of Surajpur comprising the whole Revenue Tahsils of Surajpur, Pratappur, Premnagar, Ramanujnagar, Latori, Bhaiyathan and Odagi which are presently included in and form part of Sarguja Registration district but shall hereafter cease to be included in or form part of the said Sarguja District.
(b) establishes an office at Surajpur to be styled as the office of Registrar, Surajpur.
2. (a) forms the Registration District of Balrampur comprising the whole Revenue Tahsil of Balrampur, Ramanujganj, Kusmi, Wadrafnagar, Rajpur, Shankargarh, Ramchandrapur and Samri which are presently included in and form part of Sarguja Registration district but shall hereafter cease to be included in or form part of the said Sarguja District.
(b) establishes an office at Balrampur to be styled as the office of Registrar, Balrampur.
3. Directs that the formation of the District and the establishment of the office of Registrar under clause (a) and (b) of serial number 1 and 2 respectively on above shall take effect on/from the date 05 September 2022.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIRANJAN DAS, Secretary.